

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26—जून 1, 2018 (ज्येष्ठ 5, 1940)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26—JUNE 1, 2018 (JYAISTHA 5, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

गृह मंत्रालय

(केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 2 मई, 2018

सं. ओ.दो.-9816/2018-कार्मिक (स.क.).—सरकारी सेवा से त्याग पत्र नोटिस दिनांक 23/01/2018 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सुमित कुमार सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (ईरला-9816), 208 कोबरा बटालियन ने दिनांक 10/04/2018 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 10/04/2018 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय

उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

सं. ओ.दो.-6431/2018-कार्मिक-डी.ए.-4.—सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 13/11/2017 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री हिम्मत सिंह, उप कमाण्डेन्ट (ईरला-6431), 184 बटालियन, केरिपुबल, झारग्राम

जिला पश्चिमी मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल) ने दिनांक 31/03/2018 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31/03/2018 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

मुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली, 9 मई, 2018

सं.ओ.दो.-4076/2018-कार्मिक डीए-6.—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ० मनीष भरत कुमार मूलचन्दानी, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला-10962, आर.टी.सी., केरिपुबल, जोधपुर द्वारा दिनांक 28/04/2018 (अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 28/04/2018 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

मुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-9801/2018-कार्मिक स.क.—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 12/02/2018 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री आदित्य रूहेला, सहायक कमाण्डेंट (ईरला-9801), 84 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 30/04/2018 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30/04/2018 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

मुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)

भुवनेश्वर, 10 मई, 2018

स्था.आ.सं.02—मुख्यालय के अनुभागीय कार्यालय आदेश सं. सि ए-1/प्रशासन/13 दिनांक 09.03.2018 के अनुसार निम्नलिखित एस ए एस (वाणिज्य) (वर्ग I एवं II) अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) स्तर-8 सी.सी. एस. (संशोधित वेतन) (संशोधन) नियम, 2017 पर निम्नलिखित तिथि से वाणिज्य लेखापरीक्षा विंग, कार्यालय—प्रधान महालेखाकार (आ एवं रा. क्षेत्र. लेप), ओडिशा, भुवनेश्वर में पदोन्नत किए जा रहे हैं।

क्रम सं.	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य का नाम श्री)	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि)
1.	आदित्य रंजन सामल	09.03.2018 (अपराह्न)

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति ट्रिब्यूनल/न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर उच्च/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतिम निर्णय की शर्त एवं उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना की गयी है।

वेतन निर्धारण के लिए जी.एस.आर.-622(अ) वित्त मंत्रालय दिनांक 29.08.2008 के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग कर कसते हैं।

उपमहालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता, 28 मई 2018

सं./ए12025/1-भू./अधिसूचना/2003/19ए,—केन्द्रीय लोक सेवा (सीसीएस) छुट्टी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 के नियम 12(2) की शर्तों के अनुसार और महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश 2960 से 2965/सी-13013/ 458/ एसएमएस/प्रशासनिक सतर्कता/2013, दिनांकित 21.02.2018 के तहत, श्री संकर एम.एस., भूवैज्ञानिक, भाभूस, भू-विज्ञान भवन, भवन, ब्लॉक डीके-6, सेक्टर-11, साल्ट लेक, कोलकाता-700091, को दिनांक 21.02.2018 से प्रभावी, सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ माना जाए तथा दिनांक 16.08.2011 से त्यागपत्र की तिथि तक की उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस, परिणामतः वेतन एवं भत्तों की हानि माना जाता है।

एस.दास राँय

उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

कृते महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद, मई, 03, 2018

संख्या पखनि .-16/3/2015-भर्ती/800.—निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री गोरला येसू रथनम, सहायक (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, को आस्थाई हैसियत में दिनांक 18.04.2018 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. रमेश

मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

(कारपोरेट कंपनी रजिस्ट्रार गोवा, दमन एवं दीव)

गोवा, 9 मई 2018

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. कोंकण वेस्ट मैनजमेंट एल.एल.पी.एल. एल.पी. प.सं. AAB-2664 के विषय में

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. कोंकण वेस्ट मैनजमेंट एल.एल.पी. का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त एल.एल.पी विघटित हो गई है।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार, गोवा

नाम हटाने और विधटन की सूचना

(एलएलपी अधिनियम, 2009 की धारा 37 (3) के अनुसरण में]

पब्लिक सूचना0 आरओसी/ग्वालियर/एलएलपी/धारा 75/24839.-

एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 75 और सहपठित नियम 37 एलएलपी अधिनियम 2009 के तहत मैसर्स 47 एलएलपी (सूची संलग्न है) सीआईएन 47 एलएलपी सूची संलग्न के मामले में।

ग्वालियर, 14 मई, 2018

एलएलपी अधिनियम 2008 की धारा 75 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स 47 एलएलपी (सूची संलग्न है) जो कि कार्यालय द्वारा (सु मोटो) द्वारा की गयी का नाम एलएलपी के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त एलएलपी का विधटन पब्लिकेशन के दिनांक से हो गया है

राजपाल सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

S.No.	LLP	कम्पनी का नाम
1	AAA-0311	सौनिम कन्सलटिंग एलएलपी
2	AAA-0773	मंगल कामना बिल्डर्स एन्ड डवलपर्स एलएलपी
3	AAA-1006	न्यु गोल्डन इंडिया मार्ट एलएलपी
4	AAA-2608	बोलेश्वर कन्सल्टेशन्स एलएलपी
5	AAA-2896	सशास हंगरी कारपोरेशन एलएलपी
6	AAA-3155	फलेना फार्मा लेब्स एलएलपी
7	AAA-3159	बी जे टेक्नोलॉजीज एलएलपी
8	AAA-4759	किंग्स इन्वोवेशनन्स एलएलपी
9	AAA-6264	क्युरे जुरिस एलएलपी
10	AAA-7963	क्युलप्रो रिटैल एन्ड सर्विसेज एलएलपी
11	AAA-8440	आई-केयर बिजकॉन एलएलपी
12	AAA-8445	ओ.एस.एस.वेन्चर्स एलएलपी
13	AAA-9130	श्री रामदेव रुनिचाफूड प्रोडक्ट्स एलएलपी
14	AAA-9316	ओएसिस सॉफ्टएप सर्विसेज एलएलपी
15	AAB-0931	सुख समृद्धि इन्सिटिट्यूट आफ मार्डन कैरियर एलएलपी
16	AAB-1295	सेरवा-सक्कम एजुकेटिंग सर्विसेज एलएलपी
17	AAB-1316	एसएसटी रोड कैरियर एलएलपी
18	AAB-2009	एपेक्स अटॉर्नि इन्टरनेशनल ट्रेड लॉ एलएलपी
19	AAB-4977	हिमाशी रियल एस्टेट एन्ड लेण्ड डवलपर्स एलएलपी
20	AAB-5502	केवीएन टेक कन्सलटैन्सी सर्विसेज एलएलपी
21	AAB-5803	श्रीनेट मार्केटिंग सोल्यूशन्स एलएलपी
22	AAB-6083	रियलटी नाईन रिसर्च एलएलपी
23	AAB-6380	देनोवो स्काय टैक एलएलपी
24	AAB-6580	ई मेडिसी इंडिया सर्विसेज एलएलपी
25	AAB-6926	आरएलसी प्योर मिनरल वाटर एलएलपी

26	AAB-7561	पसादे क्रीएशन एन्ड डिजाइनर्स एलएलपी
27	AAB-7686	क्रीएचर्स हेल्थकेयर सर्विसज एलएलपी
28	AAB-8037	त्रिनोवेट हेल्थकेयर सर्विसेज एलएलपी
29	AAB-8038	ट्रिपबुकिंग फेसिलेटर्स एलएलपी
30	AAB-9576	ततसु टेक्नोलॉजीज सिस्टम्स एलएलपी
31	AAB-9748	आकृति रेसीडेन्सी एलएलपी
32	AAB-9799	रॉउमेन्टो इन्फोटेक एलएलपी
33	AAB-9827	लक्की वॉइस विजन क्लब एलएलपी
34	AAC-0232	कीपेज मेनेजमेन्ट एलएलपी
35	AAC-0411	जापया इलेक्ट्रोटेक एलएलपी
36	AAC-0544	बी.आर.पी.अभिलाषा कन्सलटैन्सी एलएलपी
37	AAC-0961	तथास्तु ट्रेड प्रमोशन एलएलपी
38	AAC-1642	निमार रियलएस्टेट एलएलपी
39	AAC-1770	लक्जरी होलीडे एडवायजरी एन्ड ईवेन्ट एलएलपी
40	AAC-3358	हिजार सॉफ्ट सोलूशन्स इंडिया एलएलपी
41	AAC-4384	आकृति मेन्शन एलएलपी
42	AAC-4427	अरावी केमकॉन इंडिया एलएलपी
43	AAC-5154	एम.डी.ग्लोबल ट्रॉन्सवे एलएलपी
44	AAC-5155	एम.डी.जी.इन्फ्राहाईट एलएलपी
45	AAC-5162	कोरम इन्फोटेक एलएलपी
46	AAC-6362	हर्षिका सीड प्रोसेसर्स एलएलपी
47	AAC-7195	डिजायर इलेक्ट्रो इंडिया ट्रेडविन एलएलपी

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 15th May, 2018

F.20/2018-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote/post the following Officers to the posts and with effect from the dates mentioned against their names:—

S.No	Name & Designation	Post to which promoted/posted & Date
1.	Shri Sushwant Kumar Nigam, Assistant Registrar (Non-Shorthand)	Promoted as Deputy Registrar w.e.f. 11.05.2018 (F/N)
2.	Ms. Neelam Kawatra, Deputy Registrar (Shorthand) (Ex-Cadre)	Posted as Deputy Registrar in the unified Cadre w.e.f. 10.05.2018
3.	Shri Ravindra Kumar Rakheja, Assistant Registrar-cum-Private Secretary	Promoted as Deputy Registrar (Shorthand) (Ex-Cadre) w.e.f. 11.05.2018 (F/N)

BADR-UL-ISLAM

Additional Registrar (Admn.I)

F.No.44/V. Judges/2018/ SCA(Genl.) .— In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Supreme Court will be closed for the annual Summer Vacation from Monday, 21st May, 2018 to Sunday, 1st July, 2018 (both days inclusive) and will reopen on Monday, 2nd July, 2018.

Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has nominated the following Division Benches for hearing of urgent miscellaneous matters and regular hearing matters during the Summer Vacation for the period from May 21, 2018 to May 27, 2018, May 28, 2018 to June 3, 2018, June 4, 2018 to June 10, 2018, June 11, 2018 to June 17, 2018, June 18, 2018 to June 24, 2018 and June 25, 2018 to July 1, 2018 :

FIRST BENCH OF FIRST PART OF VACATION (21.5.2018 TO 27.5.2018)		
Division Bench	Name of the Hon'ble Judges	
1.	Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar And Hon'ble Mr. Justice Navin Sinha	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

SECOND BENCH OF FIRST PART OF VACATION (28.5.2018 TO 3.6.2018)		
Division Bench	Name of the Hon'ble Judges	
1.	Hon'ble Mr. Justice L.Nageswara Rao And Hon'ble Mr. Justice Mohan M. Shantanagoudar	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

FIRST BENCH OF SECOND PART OF VACATION (4.6.2018 TO 10.6.2018)		
Division Bench	Name of the Hon'ble Judges	
1.	Hon'ble Mr. Justice Adarsh Kumar Goel And Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

SECOND BENCH OF SECOND PART OF VACATION (11.6.2018 TO 17.6.2018)		
Division Bench	Name of the Hon'ble Judges	
1.	Hon'ble Mr. Justice Uday Umesh Lalit And Hon'ble Mr. Justice Deepak Gupta	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

FIRST BENCH OF THIRD PART OF VACATION (18.6.2018 TO 24.6.2018)		
Division Bench	Name of the Hon'ble Judges	
1.	Hon'ble Mr. Justice S. Abdul Nazeer And Hon'ble Ms. Justice Indu Malhotra	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

SECOND BENCH OF THIRD PART OF VACATION (25.6.2018 TO 1.7.2018)		
Division Bench	Name of the Hon'ble Judges	
1.	Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra And Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul	For hearing urgent miscellaneous matters on Mondays and regular hearing matters from Tuesdays to Fridays.

During Summer Vacation the Registry will remain open from 10.00 A.M. to 5.00 P.M. for all the Officers and staff members of the Registry except Group-C (non-clerical) staff in whose case timings will be from 9.30 A.M. to 5.30 P.M. on all the days except Saturdays (other than 30th June, 2018) , Sundays and holidays when it shall remain closed.

P.K. GERA
Registrar(Admn. G)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)
(DIRECTORATE GENERAL)
New Delhi, the 2nd May, 2018

No.O.II-9816/2018-Pers(A/C).— Consequent on acceptance of his notice dated 23/01/2018 for resignation from Government service, Shri Sumit Kumar Singh, Assistant Commandant (IRLA No. 9816) of 208 CoBRA Bn relinquished the charge of his post in the afternoon of 10/04/2018. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 10/04/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

New Delhi, the 4th May, 2018

No. O.11.6431/2018-Pers. DA-4.—Consequent on acceptance of his notice dated 13/11/2017 for voluntary retirement from Government service Shri Himmat Singh, Dy. Comdt. (IRLA No.6431) of 184 Bn, Jhargram, Distt-West Midnapur (WB) relinquished the charge of his post in the afternoon of 31/03/2018. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from, the same date i.e. 31/03/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY

DIG (Pers)

New Delhi, the 9th May, 2018

No. O.11.4076/2016-Pers. DA-6.—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Manish Bharat Kumar Mulchandani, Medical Officer (Asstt. Comdt.) (IRLA-10962) of RTC, CRPF, Jodhpur has relinquished the charge of his post in the afternoon of 28/04/2018. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 28/04/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY

DIG (Pers)

No.O.II-9801/2018-Pers(A/C).—Consequent on acceptance of his notice dated 12/02/2018 for resignation from Government service, Shri Aditya Ruhela, Assistant Commandant (IRLA No. 9801) of 84 Bn CRPF relinquished the charge of his post in the afternoon of 30/04/2018. Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 30/04/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY

DIG (Pers)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNT GENERAL
(ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT)

BHUBANESWAR, the 10th May, 2018

E.O. No.-02.

In pursuance of Headquarters Sectional Office Order No. CA-I/Admn/13 dated 09.03.2018, the following SAS (Commercial) (Group I & II) qualified candidate has promoted as Asst. Audit Officer (Commercial) in level-8 of CCS (Revised Pay) (Amendment) Rules, 2017 from the date mentioned below in commercial Audit Wing of the O/o the Principal Accountant General (E&RSA), Ofisha, Bhubaneswar.

Sl. No.	Name of the Asst. Audit Officer (Commercial) S/Shri	Date of taking over charge as Asst. Audit Officer (Commercial)
1	Aditya Ranjan Samal	09.03.2018 AN

The promotion to the cadre of Asst. Audit Officer (Commercial) is subject to the final decision of Hon'ble CAT/High Court/Supreme Court in the cases, if any, sub-judice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claims of their seniors.

He may exercise his option regarding fixation of pay in terms of GSR 622 E of Ministry of Finance dated 29.08.2008 as amended from time to time.

Sd/-

Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

KOLKATA, the 28th March, 2018

No. A-12025/1-Geol/Notification/2003/19A. In terms of the Rule 12(2) of CCS (Leave) (Second Amendment) Rules, 2012 read with Director General, GSI Order No. 2960 to 2965/C-13013/458/SMS/Admn.Vig./2013, dated 21.02.2018, Shri Sankar M.S., Geologist, GSI, Bhu-Bijnan Bhavan, Block DK-6, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700 091, deemed to have resigned from Government Service w.e.f. 21.02.2018, and his unauthorised absence period from 16.08.2011 to till date of resignation is treated as Dies-non resulting in loss of pay & allowances.

S. DAS ROY,
Dy. Director (P & A)
For Director General
Geological Survey of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH)

Hyderabad, the 3rd May, 2018

No.AMD-16/3/2015-Rectt/ 800.—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Gorla Yesu Rathnam, Assistant [Level 7 in the Pay Matrix] BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer [Level 8 in the Pay Matrix], in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, New Delhi with effect from the forenoon of 18.04.2018 until further orders.

K. RAMESH
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

GOA, the 9th May, 2018

In the matter of the LLP Act, 2008 and of M/s. KONKAN WASTE MANAGEMENT LLP with LLPIN AAF-2664.

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of KONKAN WASTE MANAGEMENT LLP has this day been struck off from the Register and the said LLP is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies
Registrar, Goa

PUBLIC NOTICE

(Pursuant to Rule 37(3) of LLP Rules, 2009)

Public Notice No.RoC/Gwalior/LLP/Sec.75/ 24839.—

Gwalior, the 14th May, 2018

In the matter of striking off of LLPs under Section 75 of LLP Act, 2008 read with Rule 37 of LLP Rule, 2009.M/s-47 LLPs list is enclosed.

Notice is hereby published that pursuant to sub-section (3) of Section 37 of the LLP Act, 2008 the name of 47 LLPs, mentioned in the list has been struck off from the register of LLPs and the said 47 LLP are dissolved from the date of Publication.

RAJPAL SINGH

Registrar of Companies

Madhya Pradesh, Gwalior

S.No.	LLP	LLP Name
1	AAA-0311	SONIM CONSULTING LLP
2	AAA-0773	MANGAL KAMNA BUILDERS & DEVELOPERS LLP
3	AAA-1006	NEW GOLDEN INDIA MART LLP
4	AAA-2608	BALESHWAR CONSTRUCTIONS LLP
5	AAA-2896	SASHA'S HUNGRY CORPORATION LLP
6	AAA-3155	FELINA PHARMA LABS LLP
7	AAA-3159	BEE JAY TECHNOLOGIES LLP
8	AAA-4759	KINGS INNOVATIONS LLP
9	AAA-6264	QUARE JURIS LLP
10	AAA-7963	QUALPRO RETAIL & SERVICES LLP
11	AAA-8440	I-CARE BIZCON LLP
12	AAA-8445	O.S.S. VENTURE LLP
13	AAA-9130	SHRI RAMDEV RUNICHAFOOD PRODUCTS LLP
14	AAA-9316	OASIS SOFTAPP SERVICES LLP
15	AAB-0931	SUKH SAMRADDHI INSTITUTE OF MODERN CAREERS LLP
16	AAB-1295	SERVA-SAKSHAM EDUCATING SERVICES LLP
17	AAB-1316	SST ROAD CARRIER LLP
18	AAB-2009	APEX ATTORNEY INTERNATIONAL TRADE LAWS LLP
19	AAB-4977	HIMANSHI REAL ESTATE AND LAND DEVELOPERS LLP
20	AAB-5502	KVN TECH CONSULTANCY SERVICES LLP
21	AAB-5803	SRINET MARKETING SOLUTIONS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
22	AAB-6083	REALTY NINE RESEARCH LLP
23	AAB-6380	DENOVO SKY TECH LLP
24	AAB-6580	E MEDIACY INDIA SERVICES LLP
25	AAB-6926	RLC PURE MINERAL WATER LLP
26	AAB-7561	PASADE CREATORS & DESIGNERS LLP
27	AAB-7686	CREATURE BOX STUDIOLLP
28	AAB-8037	TRINOVATE HEALTHCARE SERVICES LLP
29	AAB-8038	TRIPBOOKING FACILITATORS LLP
30	AAB-9576	TATSU TECHNOLOGY SYSTEM LLP
31	AAB-9748	AAKRITI RESIDENCY LLP
32	AAB-9799	RAUMENTO INFOTECH LLP
33	AAB-9827	LUCKY VOICE VISION CLUB LLP
34	AAC-0232	KEPPEG MANAGEMENT LLP
35	AAC-0411	JAPAYA ELECTROTECH LLP
36	AAC-0544	B. R. P. ABHILASHA CONSULTANCY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
37	AAC-0961	TATASTU TRADE PROMOTION LLP

38	AAC-1642	NIMAR REALESTATE LLP
39	AAC-1770	LUXURY HOLIDAY ADVISERS AND EVENTS LLP
40	AAC-3358	HEIZAR SOFT SOLUTIONS INDIA LLP
41	AAC-4384	AAKRITI MANSION LLP
42	AAC-4427	ARAAVI CHEMCON INDIA LLP
43	AAC-5154	M.D. GLOBAL TRANSWAY LLP
44	AAC-5155	M.D.G INFRAHEIGHT LLP
45	AAC-5162	QUORUM INFOTECH LLP
46	AAC-6362	HARSHIKA SEED PROCESSORS LLP
47	AAC-7195	DESIRE ELECTRO INDIA TRADEWIN LLP